

ANTAR RASHTRIYA SAHAYOG PARISHAD BULLETIN

Monthly Newsletter of Indian Council for International Co-operation

Vol. 36 No. 7

JULY, 2023

(16 Pages including Cover)

SRI-LANKA- A PRIORITY PARTNER OF INDIA



As part of its regular dialogue on India's relations with neighbouring countries, Antar-Rashtriya Sahayog Parishad organized a workshop on 10th June 2023, at Pravasi Bhawan, New Delhi, to deliberate on the current state of India-Sri Lanka relations. The workshop aimed at addressing the present economic difficulties experienced in Sri Lanka and the assistance provided by India to tide over the crisis.

The workshop was chaired by Dr. Markandey Rai who said Sri Lanka is a priority partner of India not only because of its strategic location but also because of its long relations with India for the last 400-500 BC when Buddhism reached Sri Lanka and King Vijaya of Bengal along with his followers went there and established the kingdom of Sinhala.

Dr. George Cooke, Diplomatic Historian & Strategist and Senior Lecturer, University of Colombo, pointed out India and Sri Lanka have a large role to play in India Pacific region, hence India remains constant in the formulation of foreign policy of Sri Lanka. Dr. Cooke intimated the historical and geographic proximity and ideological similarities bind two countries for the wider collaboration and please Sri Lanka to contribute greatly to Indo-Pacific strategy. He said, Sri Lanka is one of the oldest democracy where as India is the largest democracy, sharing something very significant with different countries of the world. Dr. Cooke asserted that 2024 is the very crucial and decisive year for both countries as India and Sri Lanka are going to see elections. Given that we should continue to strengthen our democratic process and support

each other for enhancing the democratization and initiatives taken by Prime Minister Narendra Modi to consolidate the relation should not be lost. Dr Cooke expressed "You can change your neighbor if you do not like, but cannot change the countries, so we need to cooperate and collaborate for furthering relations.

Amb. A. Manickam said, after independence, India has come to help Sri Lanka on many occasions but Sri Lanka has not reciprocated in a same fashion. India extended a pivotal help to Sri Lanka in wiping out LTTE in 2008, however Sri Lanka tilted towards China and went against the interests of India on several occasions. He pointed out, at present the Government of India understands dynamics and is ready to help and support so now it is the conducive to deepen the relation further, as India is

the right partner to help Sri Lanka in becoming food self sufficient country. Amb. Manickam also noted the vast opportunities of tourism for Sri Lanka as India is the biggest market because Indians are not very interested sun basking but visiting shrines, temples and viharas and ancient Hindu sites like Ketheeswaram temple, Arulmigu Meenakshi Sundaraswarar Temple, Koneswaram Temple, but the connectivity is to be improved. He also suggested the significance of investment by Indian industrialists but the Government of Sri Lanka has to make investment friendly environment for Indians and the anti-India rhetoric, made by certain media and particular groups, which has to be nipped in the bud.

Amb. Virendra Gupta, President, ARSP, stated, we need to look at the people-to-people connection and expand the interaction with civil society organizations that will help understand the faceted dynamics of relations with Sri Lanka. He said, one cannot find the concept of compassion in international relations anywhere in the world but Indian philosophy of 'Vasudhaiva Kutumbakam' shows its commitment to ensuring the peaceful neighbors and extending help when needed. Amb. Gupta mentioned, India's relation with Sri Lanka hinges largely on our understanding of Sri Lankan sovereign space as well as being sensitive to the aspiration of Sri Lanka for its development and its economic progress.

developmental partner and Indian and Sri Lanka develop together. India is also concerned about the political stability in Sri Lanka because it has implicit and explicit implications on India and Indian states. Prof. Bhardwaj pointed out the dominating discourse on including and excluding nationalistic discourse in Sri Lanka, as the excluding discourse has become a prime cause of discontent between India and Sri Lanka. The gross violation of human rights and exclusion of the minorities and avoidance of democratic values in Sri Lankan society cannot engender strong relation with India. Sri Lankan society itself has faced the music in the form of the recent crisis because of the repercussions out of such exclusionary tendencies. He also stated, "India has opened up for multilateral approach and ready to share resources and technology with Sri Lanka for its development, it has already be substantiated by India through having given 4 billion dollar as an aid to Sri Lanka in the recent crisis.

Prof. Sanjay Bhardwaj, JNU, said two important factors; religious elements and ethnicity which decide the relations between India and Sri Lanka, because we are part of common culture that brings both countries closer. India, being a

Dr. Bhavan Bhavaguhan, Senior Analyst - Global Tamil Forum, UK, talked about the malevolence of Sinhalese to the Tamils as the majority Sinhalese government disenfranchised the minority Tamil of Indian origin in 1948 and since then ethnic crisis and full-fledged civil war continued till 2009. He pointed out the Indo-Sri Lanka Peace Accord that is an internationally binding agreement between India and Sri Lanka with regards to resolving Tamil-Sinhalese ethnic crisis through the devolution of political power to the provinces. He told, India should not stay away but engage with Sri Lanka in an effective manner for the mutually beneficial progress.



responsible regional power, is focused on security; both internal and external, so security issues are dominating the discourse till date. Besides, security factors, India is looking at Sri Lanka as a

The workshop ended with the vote of thanks given by Dr. Markandey Rai.

Report by Zameer Anwar,
Research Fellow, CRSCR-ARSP

A.R.S.P. Bulletin

**A NEWS & VIEWS MONTHLY
Published Since 1987**

EDITOR

Keshav G. Parande
(M): 98113 92777

PRINTER

Avon Printers
D-6, Ranjit Nagar Comm. Complex,
New Delhi-110008
(M): 93123 05230
E-mail: a1printers@gmail.com

PUBLISHER

Keshav G. Parande
Pravasi Bhawan
50, Deendayal Upadhyay Marg,
New Delhi-110002
(M): 98113 92777

CONTACT

Phone (O) : 011 - 2323 4432

E-mail

arspindia@gmail.com

WEBSITE

www.arspindia.org

PRICE

Rs. 5/- per copy
Rs. 500/- for Life

PRIME MINISTER NARENDRA Modi's Visit TO USA: INDIA'S GROWING RESPECT ABROAD



Sansad Television hosted a talk on "Prime Minister Narendra Modi's visit to USA: India's Growing Respect Abroad" in Pravasi Bhawan, Delhi on 25 June, 2023. The producer, Pratibimb Sharma anchored the program that was a collaboration between Antar-Rashtriya Sahayog Parishad (ARSP), DD and Center for Studies in International Relations. The realm of Indian Diaspora is a fascinating one which engages the entire hoi Polloi of the larger comity of nation States. Soft power, though a word engineered in the west has always been a key instrumentality of power projection by a rapidly transforming Bharat. The event if one harks back to it reinstated the progression of Indian Diaspora in the

larger geo political and geo economic palate of the international system.

The event was flagged off by Sri Shyam Parande, secretary general-ARSP who insisted on the posy 2014 trending of Indian Diaspora as before the time, very few of the comity of Indian community could walk the talk with their head held high. Sri Parande pointed out the significant contribution of Indian Diaspora to the progress of USA economy and reinforcing the Relation between two countries. He was followed by Sri Anil Joshi who elaborated on the expanse and the impact of the high octane Indian Diaspora.

Dr. Manan Dwivedi and Dr. Rajeev Nayan as the designated office

holders of the CSIR dwelt upon the notion of the secretarial construct of CSIR and how for the last two decades it has been a blazing a trail of glory in the realm of germinating, researching and disseminating the myth lore and reality of the India and the Bharat from the perspective of International Relations. Dr. Raghuvansh talked about the critical role of Bharat for USA in order to tame China and Zameer Anwar elucidated the indispensable role of strong Indian Diaspora along with historical Diaspora of India such as Roma who as a cultural ambassador can turn out to be pivotal for pervading and promoting Indian cultural, spiritual and ancient wisdom all over the world. ■

THE MEETING OF ARSP INDORE CHAPTER HELD AT EKAL BHAVAN HALL



The meeting of Indore chapter, convened on 22 June, 2023, was attended by Indore office bearers and members. Following decisions, unanimously accepted, are as follows:

1. In accordance with the

ongoing campaign for inducting new members in ARSP, the members present at the meeting suggested several suitable names, with the commitment that before the next ARSP meeting, those probable members will be

contacted and inspired to fulfil the membership formalities.

2. The members present collectively decided that in the coming months, ARSP Indore chapter will host

programmes which will be in the format of-

- a) lectures by eminent speakers on socio-cultural and International issues
- b) arranging panel discussions on contemporary national and international issues
- c) contacting dignitaries visiting Indore and arranging their lectures for ARSP members

*Report by
Dr Subrato Guha
President, ARSP-Indore Chapter*

ROMA COMMUNITY – LOST CHILDREN OF GREAT INDIAN FAMILY

✍ Zameer Anwar
Research Fellow,

Centre for Roma Studies and Cultural Relations
Antar Rashtriya Sahayog Parishad-ARSP

India has witnessed numerous out-migrations since the time immemorial, nonetheless, the most intriguing but turbulent dislocation from Northern India has been identified with Roma community whose forefathers were enslaved by Mahmud of Ghazni in September-December 1018 CE when he invaded and plundered Mathura and Kannauj. The Tarikh Al-Yamini, a war chronicle by Sultan Mahmud's secretary, Abu Nasr Muhammad bin Abd al Jabbar-al-Utbi, reports the forced dislocation of 50,000 (55000 by other historians) people from Mathura and Kannauj, caused by the invasion of Mahmud of Ghazni. These deportees who were outstanding tin-smiths, iron-smiths, gold-smiths and proficient craftsmen, artisans, warriors, musicians, dancers and notables belonging to all walks of life turned out to be the progenitors of Roma. The captured were sold as slaves in Kabul and later in Khorasan, Transoxiana (now Central Asia) and Bagdad where they outnumbered the local population. As Mahmud was aware of the skill and craftsmanship of these prisoners of war so he was disposed to exploit with an aim of turning Ghazni into the capital city of the world and engaged them in the construction of palaces, buildings and Masjid-i-Jami (Bride of Heaven mosque) in Ghazni (now in south-eastern Afghanistan) and others.

Roma traversed the different territories, starting from Kannauj, Mathura and other northern parts of India to Ghazni in Zabulistan (Southern Afghanistan) and Khorasan in north-eastern Iran wherefrom, they as Ghulams and non-free military forces joined the Seljuks who defeated Ghaznavid army in the Battle of Dandanaqan in 1040. Afterwards, they moved towards Baghdad in Iraq, Armenia and Asia Minor regions on the capture of the city Ani or Anion (the present-

day Armenian-Turkish border at Kars) in 1064 CE and the decisive defeat of the Byzantine army at the Battle of Manzikert or Malazgirt in 1071 CE by the Seljuk. In the early fourteenth century, the expansion of the Ottoman Empire throughout Asia Minor precipitated a massive exodus of Roma to Bulgaria, Romania, and Serbia, some stayed in other Balkan states and offered skilled craftsmanship to mainly backward rural populations, while other Romani groups headed further west in Europe by the fifteenth century.

The history of Roma is part of shared history of India, as Roma and Indians suffered the same fate. Roma were displaced by Sultan Mahmud of Ghazni, whereas numerous Indian villages and towns were burnt and desolated as well as a multitude of Indians were killed by the same sultan. Despite an elapse of more than thousand years of Roma's exodus, Indians and Roma are knit together by a sense of shared culture and values. This is not only a historical and traditional kinship but also a physical and genetic symmetry.

The Romani people are traditionally itinerants, but now a majority of them no longer leads a nomadic life. They were widely known by the appellation 'Gypsies' until the First World Romani Congress in 1971 when the name "Roma" was officially adopted as the sole preferred ethnonym for the Roma-Gypsy groups. The linguists and philologists hypothesize that the word Roma originates from Domba (Sanskrit word "Doma"), an ethnic nomadic group living in the northern part of India. The word "Roma" means "Man and Husband" as well as Romni means "Woman and Wife" and refers to lots of different sub-ethnic groups, including Kalderash in south-eastern Europe; Gypsy and Romanichals in England; Sinti and

Zigeuner in Germany and Italy; Gitan and Manush in France; Cigani in Hungary; Kale in Wales, Finland and Portugal; Gitano in Spain; Cigan in Russia; Zingari in Turkey as well as many others.

The estimated population of Roma is to be 22 million in the world and around 12-14 million Romani people living on the European continent, representing the largest ethnic minority of Europe but awfully marginalized and backward community. (3.5 m in Turkey, 2.0 m in Romania, 1 m in Bulgaria, 0.8 m in Spain, 0.6 m in Hungary, 0.5 m in France and 0.5 m in Slovakia). In Bulgaria, North Macedonia, Slovakia, Romania, Serbia and Hungary, Roma make up between 8-10% of the total population. Both USA and Brazil also have large Roma population, exceeding 1 million each.

Romani Culture and Philosophy Symbolizing Indian Heritage

The Roma have taken up the central religion of the host countries where they have settled or been living, though this was usually superficial and just a formal adoption for avoiding religious persecution and alienation. However, some groups of Roma community are still pagans and worshipers of sun and nature. It is also riveting to signify the hereditary disposition of various groups of Roma communities towards India's Dharmic religions, venerating different deities and exalting the Hindu philosophy for their quest for spiritual and temporal realms, despite they profess to Christianity or Islam or other religious orders.

Roma do not keep idols yet worship female deity, known as Kali Sara (Kali Bibi) or Sainte Sara – is considered to be a goddess of fate, fertility, power and protection, analogous to Indian divine cult of Goddess Kali / Durga. For venerating or worshipping Kali

Sara, many Romani groups, traveling from all over the world, attend the Sainte Sara pilgrimage and procession at Saintes Maries de-la-Mer, at the communes of Arles in Southern France between 24th and 25 of May every year. Roma nomadically sing and dance day and night on the streets of Saintes-Maries dela- Mer and mumble prayers in honor of their patroness.

During the procession Romani devotees place written prayers for curing the sick, good luck, and success in life and business at the feet or near the feet of the Kali Sara's statue and they also touch and kiss the face and eyes of the statue for her blessing. The celebration of Sara festival in France is seemingly corresponding to the procession of the Kali Pooja and Shaivite tradition in India. Even at the first sight of this festival one can get the impression of parallelism between these two ceremonies.

The western scholars Dr. Rajko Djuric and Dr. Ronald Lee along with Indian scholars like W.R. Rishi, Dr. Lokesh Chandra and Dr. Shyam Singh Shashi identified the Romani ceremony of Kali Sara with Durga

Pooja of India. In Romani cult, Kali Sara has the appearance and physiognomy of a pagan idol quite similar to Indian Goddess Kali and Durga. Like Hindus, Roma too venerate the Shaktism. By these inferences and analysis, it establishes the fact that Kali Sara is identically same to the Indian goddess Durga who is another aspect of Kali, and the consort of Lord Shiva.

Ian Hancock noted that not only linguistic, physical and cultural aspects of Roma are very much Indian, but also spiritual and mystical aspects of their life resemble the Indian spiritual and mystic way of life. Holding on to Indian cultural values, Roma believe in higher spiritual power and broader sense of humanity, thus are respectful to all religions and creeds. Concordant with the precept of "Vasudhaiva Kutumbakam" (The Whole of Humanity is one Family), Roma are not only the paragon of peaceful and harmonious coexistence amongst diverse societies but also an exemplary model of constructive integration, living as equals with their neighbours but keeping their heritage alive, despite the vicious cycle of

slanders and discrimination against them.

As they do not claim any specific religious dogma, so they share and celebrate together Easter with the Christians, the Festival of Sacrifice with the Muslims, and Passover with the Jews. Roma have preserved many beliefs and values reminiscent of Hinduism which continue in day-today cultural behavior and they still behave more or less in a same way as they used to conduct themselves in India.

Roma believe in philosophy of dualism viz. God & Devil, Good & Bad, Permitted & Prohibited and Clean & Polluted, etc., known as Kintari, is quite similar to Indian concept of Karma. Roma are a non-violent, reflecting their open-mindedness to denominational diversity due to their polytheistic background. Indians and Roma bear on the ideal of religious freedom, heterodoxy, acceptance, respect and equality which embodies the doctrine of the universal brotherhood and that is now a sine qua non for a harmonious, inclusive and peaceful world. ■

INDO-CANADIAN SHUVALOY MAJUMDAR WINS PRESTIGIOUS SEAT IN HOUSE OF COMMONS

In a significant electoral breakthrough for the community, an Indo-Canadian candidate, Shuvaloy Majumdar was declared the victor in the by-election for the riding (as constituencies are called in Canada) of Calgary Heritage in the province of Alberta. He has captured a prestigious seat in the House of Commons that was once represented by the then Prime Minister Stephen Harper.

Majumdar swept to a comprehensive win with nearly two-third of the votes cast, according to preliminary results posted by Elections Canada. Majumdar, the Conservative Party candidate, easily bested his closest rivals from the ruling Liberal Party and



the New Democratic Party. The seat had become vacant following the retirement of the sitting MP Bob Benzen in December last year.

Majumdar was born in Calgary to immigrants from India and spent time working in both Iraq and Afghanistan in the early 2000s. Known for his expertise in foreign policy and national security spheres, Majumdar had earlier worked in the office of Stephen Harper, when he was the Prime Minister. He also worked as an adviser in the office of Canada's foreign minister in the Harper government. He was awarded the Queen Elizabeth II Platinum Jubilee Medal in 2023 "for his service in Iraq and Afghanistan, and for advancing Canadian interests abroad in a disrupted world". ■

PM NARENDRA Modi RECEIVES Egypt's HIGHEST HONOUR 'ORDER of the Nile'

During his official visit to Egypt, Prime Minister **Narendra Modi** was bestowed with the highest state honor of Egypt, known as the '**Order of the Nile.**' This recognition marks the 13th international award received by Prime Minister Modi. The prestigious award was presented to him by Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, making it a significant moment as Prime Minister Modi became the first Indian Prime Minister to visit Egypt since 1997.

What is the 'Order of the Nile'?

According to the official website of the Egyptian Presidency, the '**Order of the Nile**' is bestowed upon heads of states, crown princes, vice presidents, as well as individuals,



both Egyptian and foreign, who have rendered exceptional services to the country or humanity. It is also worth noting that recipients of this honor are commemorated upon their passing.

The award itself is a collar made entirely of pure gold and consists of three square gold units, each adorned with pharaonic symbols. The

first unit represents the protection of the state against malevolence, while the second unit symbolizes the prosperity and happiness brought forth by the Nile. The third unit signifies wealth and resilience..

Connecting the three units is a circular gold flower ornamented with turquoise and ruby.

Suspended from the collar is a hexagonal pendant decorated with pharaonic-style flowers and adorned with turquoise and ruby gems. At the center of the pendant, there is a prominent symbol representing the Nile, which unites the North (depicted by the Papyrus) and the South (represented by the Lotus). ■

India AND USA HEADING TOWARDS A BETTER FUTURE TOGETHER- PM Modi

PM Modi concluded his highly successful US state visit with an address to the Indian-American diaspora at an event at the Ronald Reagan Building in Washington. In his speech, he spoke of India's growing ties with America and said that both countries were 'heading towards a better future together'

Prime Minister Narendra Modi had in 2014 enthralled thousands when he had addressed crowds at Madison Square Garden in New York City. Nine years later, the prime minister did the same when he addressed a select crowd of Indian-Americans at the Ronald Reagan Building in Washington, DC.

The last engagement before he ended his state visit to the United States and flew off to Egypt, PM Modi addressed the Indian diaspora at an event organised by the United States Indian Community Foundation during which chants of 'Bharat Mata Ki Jai' and 'Vande Mataram' reverberated loudly.

After his address, US Congressman Shri Thanedar, he also escorted PM Modi to the US Congress for his address, said: "Very exciting. I have never seen this king of enthusiasm for any visiting prime minister. I am very proud of PM Modi. He is enormously popular. I am looking forward to working with him to broaden and deepen our relationship."

PM Modi had earlier arrived in the US on 21 June for his maiden state visit



on the invitation of US president Joe Biden and First Lady Jill Biden. His visit has gone beyond mere optics – the two countries, India and the US, have signed important deals in the sectors of trade, defence, technology and space. ■

PRIME MINISTER OF TRINIDAD & TOBAGO GREETED FELLOW CITIZENS ON INDIAN ARRIVAL DAY

Dr. Keith Rowley, Prime Minister of the Republic of Trinidad and Tobago, on the occasion of Indian Arrival Day 2023, extended the official greetings to members of the East Indian community, as they celebrate the arrival of the first indentured immigrants to our shores on May 30, 1845. Prime Minister urged, let us all join with the community, as today they not only reflect on their past, but also contemplate their further contributions to the nation-state of Trinidad and Tobago.



Professor of History, Dr. Brinsley Samaroo documents the abhorrence of both the Indian and African experiences, under British colonial rule. The first may have been the three-month crossing of the “Kalapani”, considered as “the black waters”, between India and “Chinitat”, then to be greeted, sadly, in a land that said they were a people that had “no religion, no education, and in their present state, no wants beyond eating, drinking and sleeping.”

Although there was the option of returning to India, after five years on the sugar plantation, they endured the prolonged experience of suffering and sacrifice. They were managed under a system of criminal laws,

designed to keep them under control. They, however, responded with strategies of solidarity and maintained their connection to their religion and their ancestral culture. Today, this community can boast of its contribution to our nation-state. The peasant, agricultural skills of the early immigrants were passed on to succeeding generations.

The community's contributions to the creation of modern Trinidad and Tobago could be identified visibly in medicine, law, the sciences, engineering, literature, arts, manufacturing, in the successful family businesses in the services sector, and in the highest levels of public service. I maintain that there is no contradiction, between a person

recognizing his or her ancestral heritage, on one hand, and pledging unwavering support to the nation-state of Trinidad and Tobago, on the other.

I believe that, at this point, all citizens need to mobilise and focus on our collective efforts and hopes for a better Trinidad and Tobago. To do otherwise is to be haunted by “ethnic ghosts,” and to perpetuate the agendas of those among us, who refused to see hope — but instead only fear, racial divisiveness, hatred, bitterness, unrest, and dissension.

Fellow Citizens, let us all recognise that we are all first and foremost Trinidadians and Tobagonians, a melting pot of varying characteristics, attitudes and mannerisms — with a mentality and temperament that are all, in the main, cheerful, fun-loving and positive, which make us a mighty people of unlimited talents and endless potential.

Our identity may have been fashioned by two distinct elements of history but today we strive together, day by day, towards a brighter future — a people reaching for their national watch-words of Discipline, Production and Tolerance. ■

NEW U.S. CONSULATES IN BENGALURU AND AHMADABAD COULD EXPEDITE VISA APPROVAL

The U.S. will open new consulates in Bengaluru and Ahmadabad while India will establish a mission in Seattle and two other locations in the U.S. Currently, India has five consulates in the U.S.: New York, San Francisco, Chicago, Houston and Atlanta, apart from the embassy in Washington. Visa delays are the single biggest impediment to growth in travel between the two countries. The two new consulates could help expedite the Indian visa application

process, which the U.S. State Department now considers a “top priority.”

Early this month, top U.S. lawmakers urged the Biden administration to address the visa wait time issue. The U.S. Consulate's all hands on deck approach — such as bringing processing staff in on weekends, making embassies available to Indian nationals in other countries and hiring more staff — has reduced the wait times in the country by 50 percent,

from an average of 669 days in mid-March to 337 days in early April, according to the U.S. Travel Association.

India has become the U.S.'s second largest international source market behind the UK (excluding Canada and Mexico). Likewise, the U.S. emerged as the second biggest source market for inbound tourism in India last year, after Bangladesh. ■

NEW YORK CITY TO INCLUDE DIWALI AS A PUBLIC SCHOOL HOLIDAY

New York City has made the decision to include Diwali, the festival of lights, as an official public school holiday, Mayor Eric Adams informed. This significant step is in response to the city's recognition of the expanding South Asian and Indo-Caribbean communities within its diverse population.

According to the 2021 American Community Survey, the Asian Indian population in the city has more than doubled since 1990, reaching approximately 213,000 residents.

Although it will not be designated as a public school holiday this year, as the lunar calendar has already been finalized.

City officials estimate that over 200,000 residents, including Hindus, Sikhs, Jains, and some Buddhists, celebrate Diwali in New York City. Mayor Eric Adams emphasized the importance of reflecting the evolving demographics of the city, stating,



“This is a city that's continuously changing, continuously welcoming communities from all over the world.”

To officially establish Diwali as a public school holiday, Governor Kathy Hochul, a Democrat, must sign the bill, which was passed by the New York state legislature earlier this month. Mayor Adams expressed confidence in Governor Hochul's support, citing her previous hosting of

a Diwali celebration last year. Senator Joe Addabbo also expressed his gratitude for the unanimous support and bipartisan cooperation that led to the passage of the bill, acknowledging Assembly member Jenifer Rajkumar as a major advocate for the Diwali holiday.

This year Diwali will be celebrated on November 12, 2023.

ONE OUT OF EVERY FIVE US STUDENT VISAS ISSUED IN INDIA IN 2022

The US Mission in India held its seventh annual Student Visa Day countrywide with Consular Officers from New Delhi, Chennai, Hyderabad, Kolkata, and Mumbai interviewing almost 3,500 Indian student visa applicants.

Speaking on the occasion, Garcetti said, “More Indians come to the United States as students than from any other country in the world. One out of every five student visas was issued right here in India in 2022 which is, by the way, more than the proportion of Indian population in the world. Indians have not only pursued education in the US but for decades have shown excellence. We are on track to process the highest number of visa applications for students in our history.

The ambassador said that they will be making more visa appointments available for students this year than ever.

We will be releasing tens of thousands of student visa appointments for July and August,” he added

According to figures shared by the embassy, the US Mission in India issued more than 1,25,000 student visas, which is a record-breaking number. In 2022, Indians were issued the highest numbers of H&L employment visas (65 per cent) and F1 student visas (17.5 per cent) worldwide.

Last year, more than 1.2 million people from India visited the US, making Indians one of the largest

groups of international visitors to the US.

Indian students comprise more than 21 per cent of the total population of international students in the US. During the 2021-22 academic year, nearly two lakh Indian students were studying in the US.

The embassy said that in the past one year, they have matched their pre-pandemic wait time for more than 20 visa categories. Their attention is focussed on reducing the wait time for tourist visa applicants who require an interview.

The in-person tourist visa appointment wait time is down 60 per cent since the beginning of this year. Student Visa Day is organised every year in June.

BHUTAN BELIEVE WINS PRESTIGIOUS BRANDING AWARDS



Brand “Bhutan Believe” won two prestigious awards in New York and London during events in May 2023.

The brand won bronze in the “Rebranding” category of the ADC annual awards in New York and D&AD wood pencil in the branding/brand refresh category, which recognises the best of the year in advertising, craft, culture and impact.

Both awards celebrate “the very best” in advertising, digital media, graphic design and more. The winners are selected by highly respected juries and presented at Annual Awards

Galas held in May 2023.

This was a wonderful achievement for Bhutan. It is a proud moment for Bhutan as its new national brand has been recognised for its artistic merits on a global stage by highly respected juries.

The national tagline for Bhutan Believe is about believing in the future of Bhutan, believing in what Bhutan is doing differently, and believing in the values, the capabilities, the contributions and the potential of our citizens.

The ADC Annual Awards is the oldest

continuously-running industry award show in the world. Now in its 102nd year, the awards celebrate the very best in advertising, digital media, graphic and publication design, packaging and product design, motion, experiential and spatial design, photography, illustration and fashion design all with a focus on artistry and craftsmanship.

D&AD promotes excellence in design and advertising. Each year, D&AD gather the world’s best creative work from across the commercial design, advertising, production and craft disciplines, and are judged by more than 330 global creative leaders, practitioners and innovators.

Bhutan Believe was launched in September 2022 as the new national brand for Bhutan. There are two audiences for Believe – internal and external. For Bhutanese it’s about believing in ourselves and the future while, for those interested in Bhutan, it’s about believing in what Bhutan is trying to achieve – a small country that dares to be different.

BHUTAN'S PARO TAKTSANG OR TIGER'S NEST MONASTERY ATTRACTS PILGRIMS AND TOURISTS

✍ By Zarafshan Shiraz, Thimphu [Bhutan]

The legendary figure credited with introducing Buddhism to Bhutan, arrived on the back of a flying tigress at Paro Taktsang Monastery hence, named Tiger's Nest

Paro Taktsang, also known as the Tiger's Nest Monastery, is an awe-inspiring sacred place and temple complex perched on the cliffside of Bhutan’s upper Paro valley. This Himalayan jewel draws both pilgrims and tourists, bewitching them with its magical charm. The journey to this historic site is already a remarkable experience, with stunning views of the Paro Valley and its lush green

environs.



Bhutan's Paro Taktsang or Tiger's Nest Monastery attracts pilgrims and tourists (Shutterstock)

However, because of the recent advancement of drone technology, we can now gain a new and engaging viewpoint of this treasured landmark, allowing us to explore the monastery in ways we could only dream of previously.

The use of drones to shoot aerial footage of Paro Taktsang has provided us with a treasure trove of spectacular visuals that reveal the architectural marvel and sheer beauty of the monastery. The drone's bird's-eye view helps us to appreciate the delicate elements of the temple complex, which includes eight caves and four main temples.

The clean white walls of the monastery stand in stark contrast to the rough cliffside, creating a stunning scene that captivates spectators. The drone film also shows the perilous approach going to the monastery, with its steep rock-carved stairs and a narrow bridge

connecting the main buildings.

Drones provide a unique perspective that provides a glimpse into the historical and legendary fabric of Paro Taktsang. According to history, Guru Padmasambhava, the legendary figure credited with introducing Buddhism to Bhutan, founded the monastery in the 8th century. According to local legend, the Guru arrived at this hallowed spot on the back of a flying tigress, hence the name "Tiger's Nest."

The drone footage even reveals the cave where the Guru is said to have meditated for an extraordinary span of three years, three months, three weeks, three days, and three hours, adding an air of mystique to these visuals.

Undoubtedly, flying drones in Paro Taktsang poses its fair share of challenges. The high altitude and strong winds make manoeuvring drones a daunting task, necessitating skilled and experienced operators to capture stable footage.

Furthermore, strict regulations have been put in place to ensure that drone usage does not disrupt the monastery's sanctity or endanger the safety of visitors and resident monks. Drone operators must acquire the necessary permits from the Bhutanese government and adhere to guidelines set by the country's Civil Aviation Authority.

Despite these obstacles, the application of drones in capturing the splendour of Paro Taktsang has opened up new avenues for showcasing Bhutan's rich cultural heritage and bolstering tourism in the country.

These breathtaking visuals have aroused the curiosity of travellers from all corners of the globe, igniting a newfound eagerness to embark on the arduous trek and experience the mystical allure of the monastery firsthand. ■

DAYS TO REMEMBER

in August, 2023

August 01 : Switzerland National Day

August 06 : Jamaica : Independence Day

August 08 : 'Quit India' Day

August 09 : Singapore : National Day

August 12 : International Youth Day

August 15 : India : Independence Day

August 16 : **Amavasya** ●

August 17 : Indonesia : Independence Day

August 19 : Afghanistan : Independence Day

August 24 : Ukraine : Independence Day

August 30 : **Purnima** ■ : Raksha Bandhan

August 31 : Malaysia : National Day

August 31 : Trinidad & Tobago :
Independence Day

हिन्दी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने दिए संयुक्त राष्ट्र को 10 लाख डॉलर

संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत रूचिरा कंबोज ने कहा कि इस वैश्विक संस्था में हिन्दी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने और समावेशी संवाद व समझ को बढ़ावा देने के लिए भारत से इसे स्वैच्छिक योगदान के तहत 10 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है।

कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग की अवर महासचिव मेलिसा फ्लेमिंग को 10 लाख अमेरिकी डॉलर का चेक सौंपा। कंबोज ने ट्वीट किया कि भारत सरकार हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण स्वैच्छिक योगदान देकर प्रसन्न है। यह समावेशी संवाद और समझ को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि हिन्दी भाषा में समाचार और मल्टीमीडिया सामग्री को मुख्यधारा में लाने

और समेकित करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों की भारत और उन देशों में सराहना की गई है, जहां हिन्दी भाषी लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी भाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए, हम संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी करके प्रसन्न है।

भारत के स्थायी मिशन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह राशि संयुक्त राष्ट्र को 'संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी भाषा के उपयोग के विस्तार के लिए' दी गई है। संयुक्त राष्ट्र कि सार्वजनिक सूचना विभाग के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी परियोजना 2018 में शुरू



की गई थी, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक पहुंच को हिन्दी भाषा में बढ़ाना और विश्व में हिन्दी भाषी लाखों लोगों के बीच वैश्विक मुद्दों के बारे में अधिक जागरूकता फैलाना है। हिन्दी में संयुक्त राष्ट्र समाचार यूएन न्यूज, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक सहित विभिन्न मंचों के साथ-साथ साप्ताहिक यूएन न्यूज-हिन्दी ऑडियो बुलेटिन के माध्यम से प्रसारित किया जाता है।

विश्व बैंक अध्यक्ष अजय बंगा का नाम अमेरिका के महान प्रवासियों की सूची में शामिल

अमेरिका में न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉर्पोरेशन के द्वारा जारी इस साल की महान प्रवासियों की सूची में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, ऑस्कर पुरस्कार विजेता की हूई कयान, गायक-गीतकार अलानिस मोरिसेते और अभिनेता पेड्रो पास्कल आदि नाम हैं। फाउंडेशन प्रवासियों के देश के प्रति योगदान और लोकतंत्र को मजबूत करने में उनके सहयोग को चिह्नित करने के लिए 2006 से प्रख्यात प्रवासी अमेरिकियों की वार्षिक सूची तैयार करता रहा है।

कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की अध्यक्ष और आयरलैंड मूल की डेम लुइस रिचर्डसन ने कहा, "ये असाधारण लोग हैं। मुझे लगता है



कि अमेरिका में बड़ा योगदान देने वाले इन लोगों की अद्भुत सकारात्मक कहानियां हर साल पेश करना महत्वपूर्ण है।" इस साल की सूची में सम्मानित 35 लोगों में छह महाद्वीपों के 33 देशों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जो उद्यम से लेकर शिक्षा और कला तक के क्षेत्र में अग्रणी हैं।

इनमें विश्व बैंक के भारतीय मूल के अध्यक्ष अजय बंगा, ईराकी मूल के फोटोग्राफर वसाम अल-बदरी, पोलैंड के नोबेल पुरस्कार विजेता रोआल्ड हॉफमैन, यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत और बेनिन मूल की गायिका एंगेलिक किदजो, विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक और नाइजीरियाई मूल की गोजी ओकोंजो इवियाला और हंगरी से ताल्लुक रखने वाली शतरंज ग्रैंडमास्टर सुसान पोलगर आदि के नाम हैं।

फीजी मूल के भारतवंशी फिल्मकार डॉ सतीश राय के साथ गिरमित देशों में भारतीय-हिंदी सिनेमा पर संवाद

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के डाइस्पोरा रिसर्च एंड रेसोर्स सेंटर एवं प्रवासी संसार फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में 'फीजी और अन्य गिरमित देशों में फिल्मों के निर्माण और इससे संबंधित चुनौतियां' विषय पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में फीजी मूल के भारतवंशी ऑस्ट्रेलियाई फिल्मकार डॉ सतीश राय से मीडिया एवं नाट्य कर्मी डॉ रमा पाण्डेय तथा जाने-माने पत्रकार रवींद्र त्रिपाठी ने संवाद किया. कार्यक्रम में डॉ सतीश राय की पुस्तक 'रोमांस विद् सिनेमा' का लोकार्पण भी हुआ. प्रवासी संसार फाउंडेशन के न्यासी और संपादक राकेश पाण्डेय ने विषय की प्रस्तावना में कहा कि सभी गिरमितिया देशों में भारतीय सिनेमा अत्यंत लोकप्रिय है।

कार्यक्रम का प्रारंभ नागेश्वर लाल कर्ण और भारत, तंजानिया आदि देशों के उनके शिष्यों द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना तथा तबला वादन से हुआ. डॉ पाण्डेय और त्रिपाठी ने डॉ राय के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे. डॉ राय ने बताया कि अब हिंदी भाषी सिनेमा की स्थिति बड़ी कमजोर होती जा रही है, क्योंकि हर नयी पीढ़ी के साथ गिरमितिया संस्कृति का अपनी मूल जमीन से जुड़ाव कम से कमतर होता जा रहा है. दूसरा पैसे की कमी ने गिरमितिया संस्कृति की चेतना और शोध पर गहरा असर डाला है. आज गिरमितिया सिनेमा को संरक्षण की सख्त जरूरत है.

संवाद के क्रम में डॉ राय ने बताया कि उन्होंने गिरमित के इतिहास और अन्य कई विषयों पर कई पुस्तकें लिखी हैं, अनेक फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री बनाई है. उनकी फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री उनके यू ट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं. लेकिन अब समर्पित एवं अनुभवी फिल्मकारों की अत्यंत कमी है. इसलिए ऐसे प्रयास किए जाने की आवश्यकता है कि गिरमित देशों में फीचर फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री बनाने में सुविधा

मिले और उनको भारत सहित अन्य गिरमित देशों में प्रदर्शित किया जाए. इस संबंध में भारतीय फिल्म उद्योग, भारत सरकार और अन्य गिरमित देशों में फिल्म निर्माण के लिए आर्थिक और अन्य सहयोग स्थापित करने के लिए विभिन्न स्तरों और व्यक्तियों, संस्थाओं के द्वारा निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

खासकर फीजी की भौगोलिक स्थिति फिल्मों के निर्माण के लिए अत्यंत अनुकूल है. फीजी में द्वितीय सचिव हिंदी और संस्कृति और भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के कार्यकारी निदेशक रहे डॉ शरद कुमार ने कहा कि फीजी में स्थानीय रूप से निर्मित हिंदी फिल्मों का इतिहास लगभग दो दशक पुराना है. फीजी संभवतः एक मात्र प्रवासी भारतीय देश है जहां फिल्म निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है. फीजी की पहली हिंदी फिल्म 'कलंक' पहली फीचर फिल्म भी थी. इसके बाद 'अधूरा सपना', 'हाईवे टू सुवा', 'बक अप मंडली', 'अनलिमिटेड तमाशा' जैसी फिल्में बनीं. वर्ष 2009-2012 के बीच की अवधि में फीजी नेशनल यूनिवर्सिटी में भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् और भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा एक फिल्म प्रोडक्शन पीठ भी स्थापित हुआ. निर्देशक प्रकाश झा ने फीजी की यात्रा की. इसके फलस्वरूप फीजी में 'टेबल 21', 'पार्टी', 'उजी', 'वार्निंग' और तमिल फिल्म 'अम्मली तुम्मली' की शूटिंग भी सुवा, सिगटोका, दिनराऊ द्वीप, लंबासा में हुई.

सुवा में स्थित स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, भारत सरकार के निदेशक रहे संतोष



मिश्रा ने कहा कि भारतीय और गिरमित देशों की संस्कृति और जन जीवन को एक-दूसरे से जोड़े रखने के सशक्त माध्यम होने और गिरमित देशों में फिल्म निर्माण की असीम संभावनाओं के बावजूद इन देशों में फिल्म उद्योग की स्थिति अत्यंत दयनीय है. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद एवं प्रवासी संसार की यह पहल निकट भविष्य में भारत, फीजी तथा अन्य गिरमित देशों में सार्थक एवं सफल फिल्मों के निर्माण के रास्ते तलाशने में मददगार साबित होगी. प्रवासी संसार फाउंडेशन ने डॉक्टर सतीश राय को 'विशिष्ट प्रवासी लेखन सम्मान' से सम्मानित किया. नाट्य संस्था रत्नव की ओर से रमा पाण्डेय और उनकी टीम ने भी डॉक्टर सतीश राय को सम्मानित किया. कार्यक्रम में भारतीय उच्चायुक्त लंदन में हिंदी और संस्कृति अधिकारी रहे डॉक्टर राकेश बी दुबे, भारतीय संसद के वरिष्ठ अधिकारी मशहूर शायर पी शिवकुमार बिलगरामी, सिनेमाकर्मी असलम खान, बलराम अग्रवाल, कवि और लेखक कमलेश भट्ट कमल, वी के शेखर, आसिफ आजमी, सुनील कांत मिश्रा, अमेरिका से पधारी लेखिका मीरा सिंह, प्रो दर्शन पाण्डेय, गीता पाण्डेय, कवयित्री वीणा मित्तल, आभा चौधरी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के मानद निदेशक नारायण कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया. ■

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा में दो दिवसीय 'अंतरराष्ट्रीय भाषा उत्सव' का हुआ आयोजन

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय सभागार में दो दिवसीय 'अंतरराष्ट्रीय भाषा उत्सव' अतिथियों ने माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष फूलमाला चढ़ाकर और दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के कुलाधिपति प्रो. हरमोहिंदर सिंह 'बेदी', विशिष्ट अतिथि श्रीमती सुमन दीक्षित, उपसचिव (भाषाएँ), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार रहे, जबकि स्वागत भाषण के रूप में केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक, प्रो. सुनील बाबूराव कुलकर्णी ने सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया।

केंद्रीय हिंदी संस्थान के मुख्यालय, आगरा द्वारा 'सार्थक संवाद का उल्लास' जैसे स्लोगन के साथ अंतरराष्ट्रीय भाषा उत्सव का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय सभागार में प्रातः 11.00 बजे से प्रारंभ हुआ। स्वागत वक्तव्य देते हुए प्रो. सुनील बाबूराव कुलकर्णी ने कहा कि अभी हाल ही में मैंने 16 मई, 2023 को निदेशक का पदभार ग्रहण किया है और यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे आने के बाद ही पूर्व निर्धारित अंतरराष्ट्रीय भाषा उत्सव का इतना बड़ा आयोजन की योजना चल रही थी, जिसे मैंने कोई हस्तक्षेप न करते हुए जारी रहने की बात कही। इस कार्यक्रम को अविस्मरणीय बनाने के लिए अखिल भारतीय साहित्य परिषद के मंत्री, श्री श्रीधर पराडकर जी का आगमन हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। भाषा वह है जो सिर्फ मनुष्य के पास है। भाषा मनुष्य को मनुष्य बनाती है। भाषा वह साधन है, जो जनसामान्य से एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करती है। अंतरराष्ट्रीय भाषा उत्सव की समन्वयक प्रो. बीना शर्मा ने कहा कि यह भाषा उत्सव संस्थान के लिए मेले जैसा है। आज आप केंद्रीय हिंदी संस्थान में ज्ञान की प्यास लेकर आए हैं, यह अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय सभागार अपने सौभाग्य पर इतरा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ विद्वान एकत्र हुए हैं, जो विभिन्न सत्रों में हिंदी भाषा, साहित्य और सूचना प्रौद्योगिकी व विदेशों में हिंदी की स्थिति पर विचार-विमर्श करेंगे। संस्थान एक ऐसा सांस्कृतिक-साहित्यिक मंच है, जहाँ देश-विदेश की नदियाँ आकर संगम करती हैं। बीज वक्तव्य देते हुए श्री श्रीधर पराडकर ने

कहा कि हर व्यक्ति के मन में एक बात भरी हुई है कि हम अंग्रेजी पढ़कर ही तरक्की कर पाएँगे। अंग्रेजी के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। सामान्य व्यक्ति भी अंग्रेजी ही पढ़ना चाहता है, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि भाषा के प्रति हमारा स्वाभिमान और आग्रह होना चाहिए। सबकुछ सीखें लेकिन भाषा न छोड़ें। भारतीय भाषाएँ अन्य भारतीय भाषाओं के साथ अपना दायरा बढ़ाने के लिए सक्षम हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में आई श्रीमती सुमन दीक्षित ने कहा कि कोरोना आया, पूरा विश्व बंद हो गया लेकिन केंद्रीय हिंदी संस्थान के कार्यों में कोई बाधा नहीं आई। भारत सरकार हिंदी की सेवा के लिए वचनबद्ध है। केंद्रीय हिंदी संस्थान ने हिंदी को दूर-दूर तक पहुँचाने का महती कार्य किया है। मंत्रालय में मीटिंग, बातचीत सभी हिंदी में ही संपन्न होते हैं। अंतरराष्ट्रीय भाषा उत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में आए प्रो. हरमोहिंदर सिंह 'बेदी' ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं और उनकी उपयोगिता, उनके व्यावहारिक पक्ष पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र के प्रति पुरातन काल से ही पंजाब, पंजाबी का विशेष दृष्टिकोण रहा है। भारतीय भाषाओं के रूप में यदि बात की जाए, तो गुरु गोविंद सिंह ने बहुत बड़ा काम किया, जिन्होंने संतों की वाणियों को 'गुरुग्रंथसाहिब' में संकलित किया। वे हर रोज भाषा उत्सव मनाते थे। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री अनिल शर्मा 'जोशी' केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल कि उपाध्यक्ष ने कहा कि यह हम सबका सौभाग्य है कि नवनियुक्त निदेशक, प्रो. सुनील बाबूराव कुलकर्णी के निर्देशन-मार्गदर्शन में अंतरराष्ट्रीय भाषा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

एकल सत्र में केंद्रीय हिंदी संस्थान की गतिविधियाँ, उपलब्धियाँ और भविष्य की रूपरेखा का प्रस्तुतीकरण श्री अनुपम श्रीवास्तव ने किया, जिसके अंतर्गत विगत वर्षों की उपलब्धियाँ इसमें दिखाई गईं व भविष्य में



संस्थान द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई।

समानांतर सत्र-01 : हिंदी पत्रकारिता-दशा और दृष्टि

इस सत्र में केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के सदस्य श्री राहुल देव ने इस सत्र में सान्निध्य के रूप में वक्तव्य दिया, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंदुस्तान समाचार पत्र की संपादक सुश्री जयंती रंगनाथन उपस्थित रहीं। दैनिक जागरण के प्रख्यात पत्रकार एवं प्रमुख स्तंभकार श्री अनंत विजय ने उक्त विषय पर बीज वक्तव्य दिया। पांजजन्य के संपादक श्री हितेश शंकर विशेषज्ञ व्याख्यान प्रदाता रहे, जबकि इस सत्र की अध्यक्षता नवभारत टाइम्स के संपादक श्री सुधीर मिश्र ने की। इस सत्र का संचालन श्री जवाहर कर्णावट ने किया, जबकि सत्र संयोजन डॉ. मंजू राय ने किया।

समानांतर सत्र-02 : हिंदू सूचना प्रौद्योगिकी

इस सत्र के मुख्य आकर्षण भारतीय भाषाएँ एवं सुगम्यता, माइक्रोसॉफ्ट के निदेशक श्री बालेंदु दाधीच रहे जो ऑनलाइन जुड़े और महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। बीज वक्ता के रूप में अमर उजाला डिजिटल के संपादक श्री जयदीप कर्णिक रहे और मुख्य वक्ता डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा, विशिष्ट वक्ता प्रो. अविनाश कुमार अग्रवाल रहे। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के सदस्य डॉ. राजेश कुमार ने इस सत्र की अध्यक्षता की। इस सत्र का संयोजन डॉ. रंजन कुमार दास एवं संचालन डॉ. मयंक ने किया।

समानांतर सत्र-03 : समकालीन साहित्य-दिशा और दृष्टि

इस सत्र के अध्यक्ष श्री श्रीधर पराडकर, वरिष्ठ साहित्यकार थे, जबकि मुख्य अतिथि वरिष्ठ

साहित्यकार सुश्री ममता कालिया उपस्थित थीं। इस सत्र में बीज वक्तव्य श्रीमती मनीषा कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ कथाकार ने दिया, जबकि मुख्य वक्ता, पद्मश्री प्रो. ऊषा ने थीं। विशेषज्ञ व्याख्यान प्रदाता के रूप में श्रीमती जयंती रंगनाथन एवं डॉ. अलका सिन्हा रहीं। इस सत्र का संयोजन डॉ. परमान सिंह ने किया, जबकि सत्र संचालन डॉ. अपर्णा सारस्वत ने किया।

समानांतर सत्र-04 : व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में हिंदी एवं भारतीय भाषाएँ

इस सत्र की अध्यक्षता श्री संतोष तनेजा ने की और मुख्य अतिथि श्री बुद्धा चंद्रशेखर रहे, जबकि मुख्य वक्ता अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल के कुलपति प्रो. खेमसिंह डहेरिया थे। इस सत्र का संयोजन डॉ. सुनील कुमार ने किया, जबकि सत्र संचालन श्री जे.पी. पांडेय ने किया।

समानांतर सत्र-05 : विदेशों में हिंदी-स्थिति एवं संभावनाएँ

इस सत्र का सान्निध्य केंद्रीय हिंदी मंडल के शासी परिषद के सदस्य श्री नारायण कुमार जी का था, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में यू.एस. से पधारी श्रीमती अनिता कपूर रहीं। इस सत्र का बीज वक्तव्य डॉ. भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली में साहित्य अध्ययन पीठ के अधिष्ठाता प्रो. सत्यकेतु सांकृत ने दिया। उन्होंने कहा कि हिंदी के विस्तार में शिक्षण संस्थानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और यह कार्य केंद्रीय हिंदी संस्थान बखूबी कर रहा है। कथालोचक व संपादक सत्यकेतु ने विदेशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर दिया। विशिष्ट वक्ता के रूप में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के हिंदी विभाग से पधारे प्रो. नवीनचंद लोहनी उपस्थित रहे। इस सत्र का संयोजन डॉ. मयंक ने किया, जबकि सत्र संचालन डॉ. सपना गुप्ता ने किया। इस सत्र में आईसीसीआर की योजना के अंतर्गत भारत भ्रमण पर आए 13 देशों के 31 विद्यार्थियों का प्रतिनिधि मंडल को केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक प्रो. सुनील बाबूराव कुलकर्णी ने उत्तरीय एवं स्मृति-चिह्न देकर स्वागत-अभिनंदन किया। इस अवसर पर दिल्ली, मेरठ, बनारस, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर आदि से बड़ी संख्या में शोधार्थी-विद्यार्थी सम्मिलित हुए तथा आगरा की प्रमुख शिक्षण संस्थानों के शोधार्थियों की सराहनीय उपस्थिति रही।

अंतर्राष्ट्रीय भाषा उत्सव कार्यक्रम के दूसरे दिन 03 समानांतर सत्र मुख्य भवन के समिति कक्ष



दूसरा दिन-बुधवार, दिनांक 24 मई, 2023

समानांतर सत्र-06: पूर्वाह्न 10.30 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे तक हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में समन्वय

में चल रहे समानांतर सत्र-06 का विषय 'हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में समन्वय' था, जिसकी अध्यक्षता डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के कुलाधिपति प्रो. बलवंत राय जानी ने की। प्रो. राय सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मातृभाषा में अध्यापन की नई श्रृंखला शुरू हो चुकी है।

समानांतर सत्र-07: पूर्वाह्न 10.30 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे तक भारतीय ज्ञान परंपरा

समानांतर सत्र-07 में प्रो. सुनील बाबूराव कुलकर्णी, निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा ने मंचस्थ अतिथियों को उत्तरीय एवं स्मृति-चिह्न देकर स्वागत-अभिनंदन किया। इस सत्र की अध्यक्षता प्रसिद्ध मनीषी एवं विचारक स्वामी माधवानंद ने की। बीज वक्तव्य डॉ. चौतन्य प्रकाश ने दिया और मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. मनोज कुमार श्रीवास्तव उपस्थित रहे। विशेषज्ञ व्याख्यान प्रदाता के रूप में सुश्री इंद्रा मोहन, श्री रविशंकर, डॉ. विवेकानंद उपाध्याय उपस्थित रहे।

समानांतर सत्र-08: पूर्वाह्न 10.30 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे तक हिंदी शिक्षण : दशा एवं दिशा

इस सत्र का विषय 'हिंदी शिक्षण : दशा एवं दिशा' था। केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा द्वारा विदेशी एवं अहिंदी भाषी स्वदेशी विद्यार्थियों के लिए हिंदी शिक्षण का कार्य करता है। उन्हें भारतीय संस्कृति, संस्कार, दर्शन से भी परिचित कराते हैं। 'हिंदी शिक्षण : दशा एवं दिशा' विषय पर बोलते हुए पश्चिम बंगाल से आई केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल की सदस्य प्रो. सोमा बंधोपाध्याय ने कहा कि भाषा से हम सबको प्रेम करना चाहिए। यह शिक्षक का दायित्व बनता है कि अपने विद्यार्थी की भाषा को सरल एवं मधुर बनाए। मातृभाषा माँ के समान होती है।

विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुति -

श्री अनुपम श्रीवास्तव एवं डॉ. रजन कुमार दास के नेतृत्व में भविष्य की रूपरेखा को लेकर केंद्रीय हिंदी संस्थान के विजन डॉक्यूमेंट का प्रस्तुतीकरण किया गया।

समापन सत्र : अपराह्न 01.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक स्थल : मुख्य सभागार,

अटल बिहारी वाजपेयी सभागार केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय सभागार में पिछले दो दिन से 'अंतरराष्ट्रीय भाषा उत्सव' का आयोजन केंद्रीय हिंदी संस्थान की आगामी योजनाओं को व्यवस्थित देने के साथ संपन्न हुआ। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष श्री अनिल शर्मा 'जोशी' ने अध्यक्षता की। इस सत्र के मुख्य अतिथि वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष प्रो. गिरीश नाथ झा थे, जबकि विशेष उपस्थिति महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के कुलपति प्रो. रजनीश शुक्ल की रही। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की कुलपति प्रो. आशु रानी ने अपना वक्तव्य दिया। हंसराज महाविद्यालय, नई दिल्ली से पधारी प्रो. रमा ने भी विशिष्ट अतिथि के रूप में अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। प्रो. रमा ने सभागार को संबोधित करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय भाषा उत्सव में सार्थक संवाद का उल्लास के साथ इस उत्सव का आगाज किया गया है। भाषा संस्कृति ही नहीं सिखाती है, बल्कि हमें संस्कार से भी जोड़ती है। उसे भाषा ही दिशा दे सकती है। अध्यक्षीय संबोधन श्री अनिल शर्मा 'जोशी' ने दिया एवं धन्यवाद ज्ञापन केंद्रीय हिंदी संस्थान के कुलसचिव डॉ. चंद्रकांत त्रिपाठी ने दिया। तत्पश्चात निदेशक प्रो. सुनील बाबूराव कुलकर्णी एवं मंचस्थ अतिथियों ने संगोष्ठी के संयोजक, सह-संयोजक एवं समन्वयक को अंगवस्त्र उढ़ाकर सम्मानित किया।

कथक नृत्यांगना कमलिनी-नलिनी को ब्रज रत्न सम्मान

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद की आजीवन सदस्या और पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना कमलिनी-नलिनी को आगरा के कुंजमल कन्वेंशनल सेंटर में इनक्रेडिबली इंडिया फाऊंडेशन द्वारा आयोजित समारोह में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, उत्तरप्रदेश मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्रा, समाजसेवी पूरन डाबर, प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में ब्रज रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया।



लिए कथक नृत्यांगना कमलिनी-नलिनी को ब्रज रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया।

उल्लेखनीय है भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोहने वाली जोड़ी नलिनी और कमलिनी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा नाम है। वर्ष 2022 में उनको इस क्षेत्र में

संस्था द्वारा बृज क्षेत्र की सभ्यता एवं संस्कृति में बहुमूल्य योगदान देने वाली विभूतियों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। इसी कड़ी में 17 जून को आगरा सभागार में कई गणमान्य

व्यक्तियों की उपस्थिति में कथक के प्रति समर्पण भाव और उसके संरक्षण, संवर्धन के

पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

श्रद्धांजलि

प्रख्यात विधिवेत्ता और हिंदी विद्वान श्री ब्रज किशोर शर्मा जी का दिनांक 3 जून 2023 को स्वर्गवास हो गया। वे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के वरिष्ठ आजीवन सदस्य थे तथा परिषद के क्रियाकलापों में गहरी अभिरूचि रखते थे। भारतीय संविधान के मर्मज्ञ, हिंदी के उद्भट विद्वान और विधि विशेषज्ञ श्री ब्रज किशोर शर्मा जी अपर सचिव, विधि मंत्रालय, भारत सरकार के पद से सेवा निवृत्त हुए और सामाजिक कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मानवाधिकार नियमों, भारतीय संविधान और विधि पर आपका लेखन असाधारण और अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन विषयों पर हिंदी भाषा में लिखित पुस्तकें लंबे समय तक भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करती रहेंगी। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, राजा राममोहन पुस्तकालय, कापी राइट कमीशन के अध्यक्ष के रूप में भी भाषा और समाज में ब्रज किशोर शर्मा का योगदान महत्वपूर्ण था।



28 सितम्बर, 1934 – 03 जून, 2023

समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री ब्रज किशोर शर्मा जी ने संगठन के उद्देश्यों एवं नीतियों को आगे बढ़ाते हुए संस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मातृभाषा हिंदी के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा रही और हिंदी के प्रचार – प्रसार और विकास की दिशा में आपकी प्रतिबद्धता और निःस्वार्थ कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। श्री ब्रज किशोर शर्मा जी जीवनपर्यंत अपने सिद्धांतों एवं विश्वासों

के प्रति प्रतिबद्ध रहे और एक श्रेष्ठ आचरणयुक्त आदर्श जीवन समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद स्व. ब्रज किशोर शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है तथा उनके परिवार के प्रति इस दुःखद घड़ी में हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है।

श्री ब्रजकिशोर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दिनांक 10 जून 2023 को नई दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब के डिप्टी स्पीकर हॉल में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस अवसर अनेक गणमान्य अतिथियों ने श्री ब्रजकिशोर जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जिनमें संकल्प के संस्थापक श्री संतोष तनेजा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के मानद निदेशक श्री नारायण कुमार के नाम उल्लेखनीय हैं।

श्रद्धांजलि सभा का संचालन केन्द्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष श्री अनिल जोशी ने किया।

वर्ष 2000 से 2013 जन कल्याण शिक्षा



भारतीय स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के अवसर पर विशेष



बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'
08 दिसम्बर 1897-29 अप्रैल 1960

बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' का जन्म 8 दिसम्बर 1897 ई० को मध्य प्रदेश के जिला शाजापुर के समीप हुआ था। उनके पिता का नाम जमुनादास शर्मा था। उनकी पढ़ाई 11 वर्ष की अवस्था में शुरू हुई। मिडिल तक की पढ़ाई गृह जनपद में पूरी करने के बाद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए उज्जैन के माधव कॉलेज में दाखिला दिलाया गया। विद्यार्थी जीवन में ही वे कविता लिखने के साथ-साथ आजादी के आंदोलनों में भी भाग लेने लगे थे। सन 1920 ई. में गांधीजी के सत्याग्रह आन्दोलन के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में आ गये और 29 अप्रैल, 1960 ई. को अपने मृत्युपर्यन्त बराबर सक्रिय रहे। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन समेत कई आंदोलनों और सत्याग्रहों में भाग लेने के कारण इन्हें छह बार जेल जाना पड़ा। जिन्दगी के नौ साल नवीन जी ने जेल में बिताये।

कवि होने के अलावा 'नवीन' जी एक अच्छे गद्यकार और कुशल सम्पादक भी थे। 1931 में गणेश शंकर विद्यार्थी जी की मृत्यु के बाद उन्हें 'प्रताप' और 'प्रभा' के सम्पादन का स्वतंत्र दायित्व मिला। 'प्रताप' और 'प्रभा' के लिए उन्होंने 'शिमला-समझौते में निराशा का अवतरण', 'मुसलमान भाइयों की खिदमत में', 'तुम्हारे उपवास की चिन्ता', 'एक ही थैली के चट्टे-बट्टे' आदि शीर्षकों से कई एक अग्रलेख और निबंध लिखे। उनके लेख हमेशा चर्चा में होते थे। नवीन जी में कविता करने की प्रेरणा पं. माखन लाल चतुर्वेदी और मैथिलीशरण गुप्त के संपर्क में आने के बाद पैदा हुई। 'जीव ईश्वर वार्तालाप' उनकी पहली कविता थी।

महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पत्रिका 'सरस्वती' में इसके छपने के बाद से ही उन्हें पहचाने मिलनी शुरू हो गयी थी। नवीन जी राष्ट्रवादी कवि थे। उनका जीवन अपनी मातृभूमि को समर्पित था। राष्ट्रप्रेम उनकी कविताओं का मुख्य स्वर है। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं जेल यात्राओं के दौरान रची थीं। 29 अप्रैल 1960 को उनका देहान्त हुआ।

हिन्दुस्तान हमारा है

कोटि-कोटि कंटों से निकली आज यही स्वरधारा है
भारतवर्ष हमारा है यह, हिन्दुस्तान हमारा है।

जिस दिन सबसे पहले जागे, नव-सृजन के स्वप्न घने
जिस दिन देश-काल के दो-दो, विस्तृत विमल वितान तने
जिस दिन नभ में तारे छिटके जिस दिन सूरज-चांद बने
तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है।

जबकि घटाओं ने सीखा था, सबसे पहले धिर आना
पहले पहल हवाओं ने जब, सीखा था कुछ हहराना
जबकि जलधि सब सीख रहे थे, सबसे पहले लहराना
उसी अनादि आदि-क्षण से, यह जन्म-स्थान हमारा है।

जिस क्षण से जड़ रजकण, गतिमय होकर जंगम कहलाए
जब विहँसी प्रथमा रुषा वह, जबकि कमल-दल मुस्काए
जब मिट्टी में चेतन चमका, प्राणों के झोंके आए
है तब से यह देश हमारा, यह मन-प्राण हमारा है।

कोटि-कोटि कंटों से निकली आज यही स्वर-धारा है
भारतवर्ष हमारा है यह, हिन्दुस्तान हमारा है।